



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1976/पौष 17, 1898

No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1976/PAUSA 17, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 1976

G S R 10(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with sub clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) the Central Government hereby appoints Shri K. Narayanan, Joint Secretary in the Ministry of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi as a director on the Board of Directors of the Food Corporation of India vice Shri K. Sundararajulu resigned, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No G S R 37, dated the 2nd January 1965, namely —

In the said notification under the heading "Directors appointed under section 7(1)(b)", against item (4), for the entry the following entry shall be substituted, namely —

"Shri K. Narayanan, Joint Secretary Ministry of Civil Supplies and Co-operation, New Delhi"

[No. F 4-1/73 FCI(Vol. II)]

R. BALASUBRAMANIAN Addl Secy

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

### (खाद्य विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1977

**सा० का० नि० 10(अ).**—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (iii) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० नारायणन, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री के० सुन्दरराजुलू, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार, की अधिसूचना स० सा० का० नि० 37 तारीख 2 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, “धारा 7(1)(ख) के अधीन नियुक्त निदेशक” शीर्षक के अन्तर्गत, मव 4 के सामने की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् .—

“श्री के० नारायणन, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।”

[स० फा० 4-1/73-एफ० सी० आई (खण्ड-II)]

भार० बालसुब्रह्मण्यन, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977